

2984

2658



$$\begin{array}{r} 8.394 \times 173000 = 14,52,681 \\ 2000 \times 1080 = 2,16,000 \\ \hline 16,68,681 \end{array}$$

0200 763150

~~Received~~6800/-  
1000/-

~~Rs - 54000/-  
(Fifty-four thousand/-) 72000/-~~

~~Mirza  
12/12/13~~

दस्तावेज नोंदव किया।

12/12/13

विक्रय पत्र कीमत कुल 17,00,000/- रुपये मात्र

रु 17,00,000

विक्रेता — श्रीमती सुमित्रा देवी, पति स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद, धर्म हिन्दू, जाति माहुरी वैश्य,  
पेशा गृहस्थामीनी, साकिन जमुदामा, पत्रालय कादिरगज, ज़िला नवादा, राज्य—बिहार,  
वर्तमान साकिन नौजा बरियारबांधी, महल्ला बम्पास टाउन, थाना देवधर, साबडिविजन,  
सबरजिघट्टी व जिला देवधर, राज्य—झारखण्ड।

PAN---B V P D 9 0 5 9 D छायाप्रति संलग्न।

कानूनी दस्तावेज देखने के लिए  
कानूनी दस्तावेज देखने के लिए

12/12/13



0200 763151

क्रेता—श्रीमती मुन्नी देवी पति श्री मोहन प्रसाद भदानी, जाति माहुरी वैश्य, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन शिव शक्ति मंदिर रोड, मौजा बरियारबोंधी महल्ला बम्मास टाउन देवघर, थाना देवघर, सराडिविजन, सधरजिष्ठी व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड।  
राष्ट्रीयता—भारतीय। PAN---BVZPD9510P छायाप्रति संलग्न।

लेख्य प्रकार :—विक्रय पत्र।

विकीत सम्पत्ति की कीमत :—कुल 17,00,000/-सतरह लाख रुपये मात्र।



0544 256531

विकीत सम्पत्ति का विवरण :- घाना नं 400, ज़िला सबडिविजन, सबरजिष्ट्री  
देवघर, खाना देवघर, सामील भोजा चरियाबांधी महल्ला बग्गास टाउन के अन्दर सर्वेषित  
बसौडी सत्य गी हस्तनामीय इमीन रकम 3.658 रुपयीट (तीन हजार छ. सौ  
अन्हावन रुपयीट) यानि 8.397 हिसामिल तदुपरिस्थित 200 रुपयीट पर बना एकतल्ला  
मकान, अन्दर मैकफरसम सर्वे सोटलमेन्ट प्लाट नं 202 व 203, गेंजर सर्वे सोटलमेन्ट  
मकान, अन्दर मैकफरसम सर्वे सोटलमेन्ट प्लाट नं 202 व 203, गेंजर सर्वे सोटलमेन्ट  
मकान, अन्दर मैकफरसम सर्वे सोटलमेन्ट प्लाट नं 375 व 387/419, राजस्व विभाग के पंजी सख्ता ॥ में दर्ज जमाबदी नं  
प्लाट नं 375 व 387/419, राजस्व विभाग के पंजी सख्ता ॥ में दर्ज जमाबदी नं  
34/3493 (G), अन्दर हत्था देवघर नगरपालिका वार्ड नं 17, छत्तीमान में देवघर नगर  
निगम वार्ड नं 16, होलिंग नं 2, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ अंश में  
दिखाया गया है भय कुल हक्क के बिक्री किया जिसकी घोहटी :-



उत्तर :-जमूना और एवं 06-00° फीट ऊँची कीमत गती।

दक्षिण :-झोराल रोड।

पुरब :-दिलीप भवानी चरीसह की जगीन।

पश्चिम :-दुसरी देवी का मकान 06-00° फीट ऊँची कीमत एवं 09-00° फीट ऊँची कीमत गती।

सिद्धि हो कि जिला संघाल परगना, यर्तगाम जिला देवधर, सराहिंदिल, सराहजिट्टी व थाना देवधर तालुक नोहिनी, गानील मौजा बरियारबीयी गहलता बन्धान टाउन की अन्दर बसीकी सरय ली जगीन, इक्का स्थानीय नोहिनी ईस्टेट के नाम से कमबैठी 13 काटठो, बय आक्षीष लीज नामका भवानादि, उसके बाद शिरणालय नामक मकानादि, मेकफरसन सोटलमेन्ट प्लाट नं० 202, 203, सालाना खजाना 13/- रुपये, अन्दर हल्का देवधर भगरपालिका वाढ नं० पुराना ६, उसके बाद 17, होल्डिंग नं० 126, उसके बाद 1, को बलाय गटटाथारे ने दिनांक 04/09/1963 ईस्टी मे निवधन कार्यालय देवधर से निवधित विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 23, पृष्ठ संख्या 260 से 266 मे निवधित जिसकी संख्या 2150 वर्ष 1963 ईस्टी की द्वारा, आलोक



महांगी शे खरीद किये व उसपर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 28/09/1967 ईस्ती मे निवान कार्यालय कलकत्ता से निर्वित विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 159, पृष्ठ संख्या 150 से 156 मे निर्वित जिसकी संख्या 5202 वर्ष 1967 ईस्ती के द्वारा, अच्युत दास के पास विकी कर दिया।

उपर्युक्त अच्युत दास उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 05/04/1976 ईस्ती मे निवान कार्यालय कलकत्ता से निर्वित विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 97, पृष्ठ संख्या 162 से 168 मे निर्वित जिसकी संख्या 1644 वर्ष 1976 ईस्ती के द्वारा, उक्त सम्पत्ति मीजा बरियारबीधी महल्ला बम्पास टाउन के अन्दर बरीड़ी सत्ता की जमीन रक्वा रुधानीय दोहिणी ईस्टेट के बाप से कम्बेसी 13 कटठा, मय आशोष लौज नामक मकानादि उसके बाद किरणालय नामक मकानादि, मेवनकरसन सेटलमेन्ट प्लाट नं 202, 203, सालाना खजाना 13/- रुपये, अन्दर हल्का देवदर नगरपालिका वाड़े नं 202, 203, सालाना खजाना 13/- रुपये, अन्दर हल्का देवदर नगरपालिका वाड़े नं 126, उसके बाद 1, के अन्दर रक्वा 2 कटठा, पुराना 8, उसके बाद 17, होलिंग नं 126, उसके बाद 1, के अन्दर रक्वा 2 कटठा,



15% पुर यानि 7.041-03<sup>rd</sup> बार्फीट, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नगरा में  
लात रंग से रगा हुआ मार्का "बी" भय कुत हक हकूक उपर्युक्ता मुझ विक्रेता श्रीमती  
सुनिता देवी के पास दिली कर दिया, विक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-1

उपर्युक्त में विक्रेता श्रीमती सुनिता देवी उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कर्ता  
लेकर तथा नगरपालिका देवघर के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाकर टैक्स आदि  
आदाय करती हुई व उसपर निर्धारित रूप से भोगवती व दखलकारीणी रहती हुई  
इसके पहले कुछ अश को विद्यमान नहीं कर चुकी है तथा अवशेष सम्पत्ति पर निर्धारित  
रूप से दखलकारीणी रहती हुई देवघर नगर निगम के कार्यालय में टैक्स आदि आदाय  
करती हुई आजतक निर्धारित रूप से भोगवती व दखलकारीणी है देवघर नगर निगम  
टैक्स रसीद की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-2

In The High Court of Jharkhand at Ranchi W. P. (C) No. 4458 of 2011 order  
dated 03/02/2012 की छायाप्रति संलग्न अनुलग्नक-3

1000Rs



१२०१३  
१२०१३  
१२०१३

अभी मुझ दिक्षेता को अपने आदानपान सांसारिक खर्च के लिये रुपये की सख्त जरूरत है इसलिये रकवा 3,658 वर्गफीट उड्डापरिस्थित 200 वर्गफीट पर बना एकतल्ली नकान, जिसका पूर्ण विवरण ऊपर खाना नं 5 में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किया।

आप द्रेता उसे अभी के बाजार माव की दर से अधिकतम कीमत पर अपने संचित स्त्रीघन से छुरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मजूरी से इसकी कीमत कुल 17,00,000/- सततरह लाख रुपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख में बिक्रेता, आप द्रेता से कीमत के कुल 17,00,000/- सततरह लाख रुपये लेकर ऊपर खाना नं 5 में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नवशा में लाल रंग से रंग और मैं दिखाया गया है मय कुल हक हवुक, आप द्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके द्वाल कब्जे में दे दिया।

अब आप जीता, मुझ चिकिता की तरफ से दखल से लाभार्थी व एक्सामकारी की ओर पढ़ अपने उत्तराधिकारी यथा शारिसान व उत्तराधिकारीय अम से भीम दखल दाने किसी भीरोड व नाना घटार के बाबदन व हसाहनसन आदि करने की अधिकारीकी होकर संवेदन मुर्दङ भीम दखल करती ही हाले मुझ चिकिता यथा शारिसान को किसी भी तरफ की तरफ आपसि नहीं होगी और कोई कर सकेगा। घटार कोई करे ही तो तो न्यायालय से निर्विवत होगा।

उक्त चिकिता सम्बन्धीत की मैं चिकिता ही एक्साप गतिकिं हूँ, इसमें दूसरा कोई क्रांतिकार या दखलकार नहीं है इससे पहले उक्त सम्बन्धीत कोई को किसी की पास किसी तरफ का दाता-संदूक या हसाहनसन आदि नहीं किया हूँ तर तरह से व साक व पाक है।

उक्त चिकिता सम्बन्धीत मैं बात घटार भविष्य में मुझ चिकिता यथा शारिसान को कुछ लिखकर या कहकर यहेगा तो ऐसी किसी व आप जीता यथा शारिसान को अनुरोध व सर्व तो ऐसा लिखने व करने को तैयार हूँ।

आपए आज लाठीच मैं चिकिता सोचने से पर व लाठीच की नवसाल में एक्स चिकिता की दखल या बहुताये के भीमत की कृत काप्त लेकर यह चिकिता एवं लिख दिया जो समय जरूरी काम आने इसी लाठीच । १७-१२-२, ०१.३

①

१२/११/१५

स्ट्रेटिजी डिजिटल

धौधना—उक्त विकीर्त सम्पति पर्याप्ति रद्दक से रहते हैं जो आवशीष है, नियांरित मूल्यांकन के अनुसार रद्दाप्रद दिया गया है।

गवाहन

① मोहन माडानी

स्थीर छावनी पुलाइ  
काम्पस टाउन देवदार

१३/१२/१५

② कुलाची देवी

का उमड़ा प्रलय भृदानी

वस्ताल टाउन देवदार

१३/१२/१५

(10)

छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान-



रामेश  
Panjab



सुमित्रा

सुमित्रा दिवी  
17/12/13

Atta Polyester  
Sanganer Panjab



मुन्जी देवी

17/12/13



दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, प्रारूपकर्ता सीताहाम पंडित  
डीड रायटर देवधर, दिनांक 17-12-2013


प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बाये हाथ

के अगलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है सीताहाम पंडित

डीड रायटर देवधर, दिनांक 17-12-2013

000Rs.

AN OF LAND UNDER MOUZI:- BARI BANDHI NO-900  
 WITHIN DEO GHAJAR HAJAR MIGAM WARD NO-16 J.B NO-34/3493(LG)  
 PART OF MC - PLOT NO- 202, 203, GEN - PLOT NO- 375 X 367 419  
 AREA- 3658sq ft SHOWN IN R.D. CONDUIT BELONGS TO Smt. SUMITRA  
 DEVI DIPRAKASH LAXMI PRASAD & NOV SOLD TO Smt. MUNNI DEVI &  
 SRI MOHAN PRASAD BHADANI OF BOPASS TOWN, DEO GHAJAR.



25' 1/2 ft 1/2 ft 1/2 ft

25' 1/2 ft 1/2 ft

1000Rs.



1000Rs.



१०००  
१०००

1000Rs.





क्रमांक  
संग्रहीत  
दिनांक



Amounts shown on  
this Duty Stamped under  
the Indian Stamp Act  
1899, & also as Amended  
by W. Bengal Stamp  
Amendment Act, 1923  
Schedule I.A. No. 23

अनुलग्न - 1

संख्या ४८१८  
कलाल

THIS INDEBTURE made this 5th day of April  
One thousand nine hundred and seventy six M.C.K.E.  
ACHYUT DAS son of Gour Chandra Das residing at 11, S.  
Road Belghoria, Howrah by caste Hindu by profession  
Business hereinafter called the V E S D O H ( which  
expression shall unless excluded by or resignant to the  
subject or context be deemed to include his heirs, executors  
administrators and assigns ) of the C S E F A B T:  
AND Smti SUMITA DAS wife of Lachmi Prasad by caste Hindu  
by profession house wife residing at Vill Jangiana P.O.

Contd. No. 2



- 10 -

Kadirgunj District Narendranagar at present Deoghar S. P.  
Bihar hereinafter called the PURCHASER which expression shall  
unless excluded by or repugnant to the subject or context be  
deemed to include his heirs, executors, administrators, and  
assigns & of the OTHER PART.

WHEREAS by a conveyance dated the 4th day of  
September 1963 made between Alake Chatterjee of the one part  
and Balai Bhattacharjee of the other part and registered at  
the office of the Sub-Registrar, Deoghar in Book No. I  
Volume No. 29 pages 260 to 264 Being No. 2169 for the year  
1963 the said Balai Bhattacharjee at or for the consideration  
therein mentioned purchased all that messuage tenement here-  
diments and premises then known as Ashis Lodge now known  
as Kiranlalaya in Bompasa town in the town of Deoghar in the  
State of Bihar more fully described in the Schedule hereunder  
given as also hereunder written.,,

Contd ...3.

17/12/13



- 3 -

AND WHEREAS the said Balai Bhattacharya absolutely sold the said property to the said Achyut Das the Vendor of these presents by a conveyance dated the 28th day of September 1967 registered in the Calcutta Registration office vide book No. I Volume No. 189 pages from 150 to 156 Being No. 5405 for the year 1967.

AND WHEREAS THE vendor has since the date of his aforesaid purchase been seized and possessed of or otherwise well and sufficiently entitled as absolute proprietor thereof to the mensonge land hereditments and premises hereinafter fully set forth and described in the Schedule .

AND WHEREAS the Vendor has divided and demarcated his aforesaid properties into four Plots marked them as A, B,C, and D and declared to sell them save and except the plot marked as "A" fully described in the Schedule herunder and demarcated and delineated in the Map or Plan annexed hereto

*Contd ...*

and whereas the Purchaser having informed of the said declaration proposed to the vendor for purchasing the aforesaid messuage land hereditments and premises marked as B in the map or plan and coloured Red annexed hereto measuring an area of 2 Cottahs 15  $\frac{3}{4}$  dhurs ( 7041'-3 Sft) for a consideration of Rs. 6000/- ( Rupees six thousand ) only .

AND WHEREAS the Vendor accepting the said proposal has agreed to sell the said messuage land hereditments and premises fully described in the Schedule hereunder and demarcated and delineated in the Map or Plan hereto annexed and thereon marked as Plot B and coloured Red , for a consideration of Rs. 6000/- ( Rupees six thousand ) only being certain of the said price to be the present market value .

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and in consideration of the said sum of Rs. 6,000/- ( Rupees six thousand ) only paid to the vendor by the Purchaser the receipt whereof the vendor doth hereby as well as by the receipt hereunder written admit and acknowledge of and from the same and every part thereof acquit release discharge the purchaser and the said messuage hereditments and premises and every part thereof he the vendor doth hereby grant convey, transfer and assure by way of ABSOLUTE SALE unto and in favour of the Purchaser ALL THAT the lands hereditments and premises fully described in the Schedule hereunder written and demarcated, delineated in the map or plan hereto annexed and thereon marked as Plot B and coloured Red, measuring an area of 2 Cottahs 15  $\frac{3}{4}$  dhurs ( 7041'-3 Sft) more or less according to the Bohini measurement

Contd ...5.

together with brick built structure in dilapidated conditions,  
trees ditches ways sewers drains water, water courses,  
liberties privileges, emoluments, and appurtenances whatsoever  
thereunto belonging held or occupied therewith and all the  
estate right title interest claim and demand whatsoever into  
and upon in respect of the said messuage land hereditaments  
and premises and every part thereof and all the rents issues  
profits income or other monies that have already become due  
or hereafter to become due in respect of the said property  
together with full power to demand sue for and give effectual  
receipts and discharges, for all rents issues profits,  
income or other monies that are now due or hereafter to  
become due and payable in respect of the said property  
TO HAVE AND TO HOLD the same and inheritance thereof in  
fee simple possession unto the purchaser her heirs, executors,  
administrators and assigns absolutely and for ever and the  
Vendor covenants with the purchaser that notwithstanding any  
act deed or thing by the vendor or any of his predecessors  
in title he the vendor hath good right full power and  
absolute authority the said lands hereditaments messuages and  
premises unto the purchaser shall and will at all times  
hereafter peaceably and quietly possess and enjoy the said  
property and receive the rents issues, profits thereof with-  
out any lawful eviction interruption claim or demand what-  
soever from or by the vendor or any person or persons having  
or lawfully claiming from under or in trust for the vendor  
or any of his predecessors, in title and that free from  
all encumbrances made or suffered by the vendor or any of  
his predecessors, in title or any person having or lawfully  
claiming as aforesaid and further he the vendor his heirs,  
executors, administrators or any person or persons claiming

Contra ... S.

(21)

from under or in trust for the vendor any estate or interest  
in the said lands hereditaments premises or any part thereof from an  
owner or in trust for the vendor or from under any of his  
predecessors, in title shall and will at all times hereafter  
at the request and cost of the Purchaser do and execute all such  
acts, deeds and things whatsoever for further and more perfectly  
assuring the said lands hereditaments manors and premises  
and every part thereof unto the Purchaser as may be reasonably  
required.

H.C.R.E.D.U.S.:

IT IS THAT ~~the~~ <sup>the</sup> tenant's hereditaments and  
premises together with piece or parcel of land containing an  
area of, according to Rohini measurement 13 Cottas or the  
same a little more or less together with trees structures, in  
partly good and partly in decapitated condition and services  
standing thereon as Ashia Lodge in Varier Bundhi Bouspan town  
within Taluk, Rohini No. 3 Settlement Plot s, 302 and 303,  
in He Pherson settlement, Police Station Sub-Registry Sub-  
Division Deoghar in the District of Sonthal Parganas annual  
rent payable to the Rohini Estate is Rs. 13/- within the  
Municipality of Deoghar in Old Ward No. VIII Holdings No. 126  
and New Ward No. 17 Holdings No. 1 ~~OUT OF WHICH~~ all that piece  
or parcel of land measuring tenant's hereditaments and premises  
measuring an area of 2 Cottas 15  $\frac{3}{4}$  Dhurs (7041-3" set.)

(21)  
11/10/92

Contd ...?

- 7 -

marked as Plot 5 and coloured red duly demarcated and delineated in the map or plan hereto annexed to the same a little more or less are hereby granted conveyed and transferred by these presents unto the Purchaser of these presents absolutely, batted and bounded in the manner as follows :-

On the North :- Jamuna Jora Nullah

On the South :- Berai Wood

On the East: Plot No. "A" now in the Vendor's possession.

On the West : Plot No. "B" sold to Ranjil Prasad.

or somewhere otherwise battled bounded called  
known numbered remated or belong to .

IN WITNESS WHEREOF the Vendor doth hereby set and  
subscribed his hand and seal and signature the day ninth and  
year first above written.

Signed and Delivered at  
"Alotta in the presence  
of :-

Ananday Singh  
Abraham.

Holyat

6/11/1947

31-10-2013-2

# DEOGHAR NAGAR NIGAM

H राज काल एक  
Receipt Book No. नं. १०८ पर्सन नं.

देवधर नगर निगम  
नियमित संघरण समिति  
वर्ष १९७४ अ.स. १०८

Receipt No. नं. ६४७१

Joharia नाम २३ नवंबर २०१३

Number of Assessoree in form B नाम वाले की संख्या (अक्षरों में) २

क्रम नं. १६ लाइन नं.

Name of Assessoree नाम वाले सुशील

परिवार की संख्या ५। वर्ष २०१३

Received the sum of Rs

८७.२९/-

of Municipal Tax as per details below इस तालिका (अक्षरों में) के अनुसार नीचे दिया हुआ है। नाम देखते नगर निगम

Period महीना	2012 Previous year वर्ष २०१२				Current year वर्ष २०१३				Total राशि
	1st qr. पहली तिथि	2nd qr. द्वितीय तिथि	3rd qr. तीसरी तिथि	4th qr. चौथी तिथि	1st qr. पहली तिथि	2nd qr. द्वितीय तिथि	3rd qr. तीसरी तिथि	4th qr. चौथी तिथि	
	Period महीना	Amount राशि	Amount राशि	Period महीना	Amount राशि	Amount राशि	Amount राशि	Amount राशि	
Holding tax मूल दर	18.00	11.18	112.17	112.17	112.17	112.17	112.17	112.17	231
Latrine tax लॉट्रिन दर	1124.80	78.30	78.30	78.30	78.30	78.30	78.30	78.30	1212
Edu. cess शिक्षा दर	2250.40	148.61	148.61	148.61	148.61	148.61	148.61	148.61	281
Water tax जल दर	900.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	112
Health Cess स्वास्थ्य दर	900.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	112
Warrent fee जारी कराने का दर	10.00	0	0	0	0	0	0	0	10
Total कुल	2954.80	193.59	193.59	193.59	193.59	193.59	193.59	193.59	67

Total in words/ अमा कृन अक्षरों में

तीन हजार छह सौ चाहाँ रुपये

रु. ३.४

Date:

12/10/13 देवधर नगर निगम

नगर निगम देवधर

01/11/13

01/11/13

(24)

Bengaluru - 3

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI  
W.P. (C) NO. 458 OF 2011

Yash Dev Singh & Anr. - Petitioners  
The State of Jharkhand & Ors. - Respondents

OMER KHAN

RECORDED IN THE REGISTRY OF THE HIGH COURT

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI  
W.P. (C) NO. 458 OF 2011

No reference of the petitioners is made in para 1 of the letter dated 17/11/2010 of this Court in the case of Daman Prasad Thakur Vs. the State of Jharkhand & Ors., reported in 2008(1) JLJR 384, that the Registrar Douglas had not conceded the sole deed for registration in absence of 'no objection certificate' though the same was issued in respect of the land.

Learned counsel for the petitioners submitted that under Sub-liaison used to demand 'no objection certificate' issued by the Circle Officer on presentation of sole deed also in respect of certain land. One Daman Prasad Yadav and several other persons had protested against the same. Daman Prasad Yadav has filed a writ petition in the High Court of Bihar.

(i) In view of the above situation, it is held that the Registrar can't be bound by the sole deed, nor his authority can't be granted for adding to his jurisdiction certificate issued by Circle Officer instead of the Circle Officer in place of the sole deed by the circle officer. It is known to the learned counsel that the Act of 1925 does not provide for any application in respect of sole deed. There was no application of the sole objection as contained in Annexure-I & II of the Deputy Commissioner's Order if the Circle Officer (Annexure-3) rejected the sole deed. It is, however, discussed that the registrar's authority is decided to accept the sole deed for registration, if there is no such legal impediment, without compelling the petitioner to produce 'no objection certificate' on the basis of the said instruction or the administrative order of the Deputy Commissioner or contained in Annexure-I & II.

(ii) Petitioner submitted that despite the order of 17/11/2010, the State Registrar Douglas has refused to accept the aforesaid sole deed for registration on the ground that the same had been presented without the objection certificate.

(25)

Lokhandwala & Co. v. S.C. (P.W.D.), appealing on behalf of the Respondents, submits that if the petitioners' matter is answered in the usual manner in Gorain Patel's case (hereinafter referred to as "the underlying no objection certificate") and the petitioners have cause to believe that they have been accepted without demanding any objection certificate.

I have heard learned counsel for the parties.

According to the petitioners, in spite of clear direction of the Court, Sub Registrar Deoghar is still following the same practice of issuing 'no objection certificate' in case of transfer of Bouse land of the dated.

This is an unreasonable state of affairs and the respondents are still demanding 'no objection certificate' and unnecessarily harassing the parties to the transfer cases. In spite of clear order of the Court to that regard in Gorain Patel's case. That amounts to non-compliance of the order of the Court. Admitted persons are filing writ petitions to the same relief, which adds to unnecessary burden of pendency on the Court and unnecessary harassment to the litigants.

The public servants of a welfare State can never be harassing the citizens and fail to set them to administration smoothly. On the contrary, it is the duty of the State to see that the public functionaries do their duty in the interest of the public. The public functionaries should not only abide by the order of the Court and uphold welfare of the citizens but also do their duty without any fear and favour.

The writ petition is expected of, giving liberty to the petitioners to approach the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate Deoghar-Respondent No 2 and raise his objection if the said District Commissioner fails, that the matter is covered by the earlier

33

Left side of the table has been to the Child Services  
government for assessing the same to fit Unfinished  
University work.

Unfinished work typed. 13

Epcell  
P. H. Miller



GOVERNMENT OF INDIA

ENVIRONMENT

Ministry of Environment and Forests

ENVIRONMENT

Ministry of Environment and Forests

MINISTRY OF  
ENVIRONMENT  
GOVT OF INDIA



MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  
GOVERNMENT OF INDIA  
CIVIL SERVICE COMMISSION, GOVT OF INDIA  
GOVERNMENT OF INDIA  
GPO - 1971

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  
GOVERNMENT OF INDIA  
CIVIL SERVICE COMMISSION, GOVT OF INDIA  
GOVERNMENT OF INDIA  
GPO - 1971

207  
12/10/15



2658



MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
GOVT OF INDIA



RECEIVED  
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
SUBJN 1970  
Personnel Account Section  
B22P08816P

PROBLEMS OF THE PEOPLE : THE  
ARMED FORCES AND POLITICAL  
POWER IN INDIA, 1970-1971  
A FILM BY RAVI SHANKAR, ANUJ SINGH, K  
SHANTIPRASAD, PRAKASH KUMAR  
PB - 811 26.

IF YOU NEED A COPY - PLEASE CALL OR WRITE  
PHONE NUMBER - 011-4621  
TELEGRAM ADD. 1044, NEW DELHI, 110001.  
Mr. Rakesh, Manager Screening  
Post Box No. 101, Rajpath, New Delhi,  
Model Colony, New Delhi, 110001  
Phone - 6211410  
or 6211411 or 6211412 or 6211413 or  
e-mail: [rakesh@ispi.org.in](mailto:rakesh@ispi.org.in)

J. M. D.  
17/10/73

INDIA  
INCOME TAX DEPARTMENT  
MOHAN BHADANI  
LAXMI PRASAD  
09/12/1963  
AQRPB5258H

GOVT OF INDIA



58

मोहन भदडी  
लक्ष्मी प्रसाद  
17/12/13

50

ભગત કુમાર હાજરી  
શ્રી

નિયત સંપત્તિ વર્ણન લિખા

નિયત સંપત્તિ વર્ણન લિખા

નામ & નિધિનામ  
મો. નામ  
મો. નિધિ  
મો. નિધિ  
નામ & નિધિ  
નામ & નિધિ

બૈન્ડ નંબર  
બિંગાડી ફેન્ડ ડેઝિન  
ક્રેન  
188000  
16888  
નામનામ  
સેન્ટ નામ  
દાન નામ  
નામ  
સેન્ટ નામ  
નામ

દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ  
દાન નામ

સ્વચ્છ વિગત

નામ	થ. નં.	વિનિયોગ માટે	અં. નં.	થ. નં.	વિનિયોગ લાભ	નિ. નં.	સંનાતક લાભ	ક્રમ	નિધિ
દાન નામ	168	સુરક્ષા	168	168	સુરક્ષા	168	સુરક્ષા	168	168
દાન નામ	168	સુરક્ષા	168	168	સુરક્ષા	168	સુરક્ષા	168	168

દ્વારાએ વિનિયોગ

નિધિ	થ. નં.	વિનિયોગ	સરનામાં નિધિ	નામ	નિધિ	સરનામાં નિધિ
નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નામ	નિધિ	નિધિ

દ્વારાએ વિનિયોગ

નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ	નિધિ

દ્વારાએ વિનિયોગ

નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ
નામ	નિધિ	નિધિ	નિધિ

નામ વિનિયોગ કરી રહેયું હૈ

નામ કરી રહેયું હૈ

નામ  
નામ

સુખિન દે

નામ  
નામ  
નામ

સોહન મધુબી  
નામનામ 21325, પુરા

નામ વિનિયોગ કરી રહેયું હૈ



નામ વિનિયોગ કરી રહેયું હૈ

राजस्थान रजिस्टरेशन  
टैक्स

No. 39 Token Date: 17/12/2013 15:27:58

Deed No. Year : 2984/2658/2013

Deed Type: Sale Deed

SN.	Party Details	Photo	Thumb
1	Sunitra Devi Father/Husband Name: Late Laxmi Prasad (VENDOR) Bompass Town, Deoghar.		
2	Munni Devi Father/Husband Name: Mohan Pd. Bhadani (VENDEE) Bompass Town, Deoghar.		
3	Mohan Bhadani Father/Husband Name: Late Laxmi Prasad (Identifier) Bompass Town, Deoghar.		
4	Mohan Bhadani Father/Husband Name: Late Laxmi Prasad (Witness1) Bompass Town, Deoghar.		
5	Dulari Devi Father/Husband Name: Lt. Umesh Pd. Bhadani (Witness2) Bompass Town, Deoghar.		

Book No. 1  
 Volume 338  
 Page 1 To 62  
 Deed No. 2984/2658  
 Year 2013  
 Date 17/12/2013 15:56:50

*Wingal*  
Registering Officer  
11/12/2013

  
Signature of Operator